



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 1980/फाल्गुन 27, 1901
No. 102] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 1980/PHALGUNA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1980

आयकर अधिनियम, 1961

का. आ. 188(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 की उपधारा (11) का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 307 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 1977 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य और राजस्व विभाग में भारत सरकार के पवेन अपर सचिव, श्री टी. वाई. सी. राव को, आयुक्त के ऐसे पूर्व अनुमोदन से, जो उक्त श्री टी. वाई. सी. राव का जब वे आयकर आयुक्त थे, अनुमोदन नहीं है आयकर अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध आवेदनों पर

आवेश पारित करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है ।

[संख्या 3215/फा. सं. 287/18/78-आई. टी. (इन्व)]

ए. एन. मिश्र, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1980

INCOME-TAX ACT, 1961

S.O. 188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. S.O. 307(E) dated the 30th April, 1977, the Central Government hereby notifies Shri T.Y.C. Rao, Member, Central Board of Direct Taxes and ex-officio Additional Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, as the authority for the purpose of passing orders on applications against any order made under sub-section (5) of the said section by an Income-tax Officer with the previous approval of the Commissioner, not being the approval of the said Shri T.Y.C. Rao, when he was Commissioner of Income-tax.

[No. 3215/F. No. 287/18/78-IT(Inv)]

A. N. MISRA, Dy. Secy.